



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

21 चैत्र, 1940 (श०)

संख्या- 417 राँची, बुधवार,

11 अप्रैल, 2018 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग।

अधिसूचना

14 फरवरी, 2018

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1207-- पदस्थापन हेतु प्रतीक्षारत श्री दिपांकर पण्डा, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 466/03, गृह जिला- रामगढ़) को अगले आदेश तक अपर सचिव, वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

ii. श्री पण्डा अपने कार्यों के साथ मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, झारखण्ड राज्य खादी ग्रामोद्योग, राँची के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1208-- प्रबंध निदेशक, खनिज क्षेत्र विकास प्राधिकार (माडा), धनबाद के पद पर पदस्थापित श्री शशिधर मंडल, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक- 556/03, गृह जिला- भागलपुर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद, लोहरदगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1209-- सचिव, बियाडा, बोकारो (संयुक्त सचिव स्तर में उत्क्रमित) के पद पर अपने वेतनमान में पदस्थापित श्री मनोज जायसवाल, झां.प्र.सें. (कोटि क्रमांक- 619/03, गृह जिला- राँची) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, पाकुड़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1210-- संयुक्त सचिव, ऊर्जा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रवि रंजन मिश्रा, झां.प्र.सें. (कोटि क्रमांक- 609/03, गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, बोकारो के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1211-- संयुक्त सचिव, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री कमलेश्वर प्रसाद सिंह, झां.प्र.सें. (कोटि क्रमांक- 567/03, गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1212-- बन्दोबस्त पदाधिकारी, राँची के पद पर पदस्थापित श्री चन्द्र किशोर मंडल, झां.प्र.सें. (कोटि क्रमांक- 483/03, गृह जिला- पूर्णिया) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, खूँटी के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1213-- परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित श्री विश्वनाथ माहेश्वरी, झां.प्र.सें. (कोटि क्रमांक- 629/03, गृह जिला- मुंगेर) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

ii. श्री माहेश्वरी अपने कार्यों के साथ परियोजना निदेशक, समेकित जनजाति विकास अभिकरण, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के अतिरिक्त प्रभार में रहेंगे ।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1214-- संयुक्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री आलोक त्रिवेदी, झां.प्र.से. (कोटि क्रमांक- 615/03, गृह जिला- पटना) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, कोडरमा के पद पर पदस्थापित किया जाता है।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1215-- संयुक्त सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री राम कुमार सिन्हा, झां.प्र.से. (कोटि क्रमांक- 613/03, गृह जिला- नालन्दा) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, गढ़वा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

संख्या- 3/पद-01(ख)-13/2014 का.- 1216-- संयुक्त सचिव, मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग, झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित श्री रामाशंकर प्रसाद, झां.प्र.से. (कोटि क्रमांक- 546/03, गृह जिला- सारण) को स्थानांतरित करते हुए अगले आदेश तक उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी जिला परिषद्, जामताड़ा के पद पर पदस्थापित किया जाता है ।

2. सम्बंधित पदाधिकारी तत्काल प्रभाव से योगदान सुनिश्चित करेंगे तथा फरवरी, 2018 का वेतन नव पदस्थापित स्थान से प्राप्त करेंगे ।
3. सम्बंधित नियंत्री पदाधिकारी उक्त स्थानांतरित/पदस्थापित पदाधिकारियों के प्रभारान्तरण की कार्यवाही तत्काल प्रभाव से सुनिश्चित करेंगे ।
4. जिन पदाधिकारियों के स्थान पर अन्य पदाधिकारी का पदस्थापन किया गया है, परन्तु यदि उनका स्थानांतरण/पदस्थापन अन्यत्र नहीं किया गया है, वैसे पदाधिकारी पदस्थापन हेतु कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची में योगदान करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

एच० के० सुधाँशु,
सरकार के अवर सचिव।
